

राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2014

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. शोकाभिव्यक्ति

श्री परसराम मदेरणा, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा एवं सदस्य, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी, सातवीं, नवी, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

2. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन

का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का प्रतिवेदन (वर्ष 2010-15) तथा उस पर कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन ; एवं
- II राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा-18 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा संपरीक्षित लेखों का समेकित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन

- 1- श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन करेंगी ।
- 2- श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री वर्ष 2014-2015 के लिये लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेंगी ।

जारी..2..

5. लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी ।

6. विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-
- राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-12)
- "वित्तीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

7. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2013-2014 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन, मतदान एवं पारण

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री वर्ष 2013-2014 (द्वितीय संकलन) के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करेंगी ।
- (II) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2013-2014 (द्वितीय संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

8. विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-
- राजस्थान विनियोग
(संख्या-1) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-11)
- "वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 19 फरवरी, 2014